



Anika shukla

30 Nov 2025

07:09 AM

Ayodhya

Model: Web-MyKundli

Order No: 121028901

## सूचना

ज्योतिष एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत ग्रहों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके प्रभावों की भविष्यवाणी करने हेतु ग्रहों की स्थिति एवं इसके बल की गणना की जाती है। जन्मपत्रिकाओं की गणना अति सटीक है जिसमें बिल्कुल सही रेखांश प्रयुक्त हुए हैं। सामान्य तौर पर इसमें चित्रापक्षीय अयनांश का प्रयोग किया जाता है जबतक कि आप दूसरे अयनांश का विकल्प न मांगें।

कम्प्यूटर जन्मपत्रिकाएं मुख्य रूप से पाराशरी पद्धति पर आधारित है। हालांकि इसमें ताजिक पद्धति, जैमिनी पद्धति, कृष्णमूर्ति पद्धति, प्रश्नशास्त्र एवं पाश्चात्य पद्धतियों का भी ज्योतिषीय गणना में मिश्रण किया गया है। फलादेश मुख्य रूप से विभिन्न प्राचीन शास्त्रों जैसे बृहत् पराशर, होराशास्त्र, मानसागरी, सारावली, जातकभरणम, बृहत् जातक, फलदीपिका, जातक पारिजात के अनुरूप, साथ ही अपने अनुभवों का भी समावेश करके बनाया गया है। फिर भी, ज्योतिष का मार्गदर्शन लेकर हम अपने भविष्य का संकेत मात्र प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा ही यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आनेवाले समय में क्या घटित होगा ?

यह जन्मपत्रिका जन्म तिथि, जन्म समय एवं जन्म स्थान पर आधारित है जो कि जातक ने हमें उपलब्ध कराया है। अतः आंकड़ों की सटीकता से संबंधित हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ज्योतिषीय गणना एवं फलादेश जातक द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के ऊपर आधारित है। जन्मपत्रिका में दिए गए फलादेश जातक के लिए सिर्फ संकेत मात्र है जिस पर जातक को सावधानीपूर्वक अमल करना चाहिए न कि हूबहू जैसा फलादेश में कहा गया है, बिना सोचे समझे उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। जन्मपत्रिका के विभिन्न पृष्ठों में दी गयी सूचनाएं किसी भी प्रकार के विवाद अथवा वैधानिक कार्यवाही के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः जातक की स्वयं की कार्यवाही से उत्पन्न हुए किसी भी क्षति के लिए हम उत्तरदायी नहीं है।

**आचार्य उज्ज्वल कृष्ण शास्त्री जी**

श्री धाम अयोध्या जी ( सारंगपुर )

7906311562 , 7388947439

Ujjwalkrishna7388@gmail.com

लिंग \_\_\_\_\_: स्त्रीलिंग  
जन्म तिथि \_\_\_\_\_: 30/11/2025  
दिन \_\_\_\_\_: रविवार  
जन्म समय \_\_\_\_\_: 07:09:00 घंटे  
इष्ट \_\_\_\_\_: 01:31:48 घटी  
स्थान \_\_\_\_\_: Ayodhya  
राज्य \_\_\_\_\_: Uttar Pradesh  
देश \_\_\_\_\_: India

अक्षांश \_\_\_\_\_: 26:47:00 उत्तर  
रेखांश \_\_\_\_\_: 82:12:00 पूर्व  
मध्य रेखांश \_\_\_\_\_: 82:30:00 पूर्व  
स्थानिक संस्कार \_\_\_\_\_: -00:01:12 घंटे  
ग्रीष्म संस्कार \_\_\_\_\_: 00:00:00 घंटे  
स्थानिक समय \_\_\_\_\_: 07:07:48 घंटे  
वेलान्तर \_\_\_\_\_: 00:11:20 घंटे  
साम्पातिक काल \_\_\_\_\_: 11:44:33 घंटे  
सूर्योदय \_\_\_\_\_: 06:32:16 घंटे  
सूर्यास्त \_\_\_\_\_: 17:07:37 घंटे  
दिनमान \_\_\_\_\_: 10:35:21 घंटे  
सूर्य स्थिति(अयन) \_\_\_\_\_: दक्षिणायन  
सूर्य स्थिति(गोल) \_\_\_\_\_: दक्षिण  
ऋतु \_\_\_\_\_: हेमन्त  
सूर्य के अंश \_\_\_\_\_: 13:52:36 वृश्चिक  
लग्न के अंश \_\_\_\_\_: 21:02:11 वृश्चिक

#### अवकहड़ा चक्र

लग्न-लग्नाधिपति \_\_\_\_\_: वृश्चिक - मंगल  
राशि-स्वामी \_\_\_\_\_: मीन - गुरु  
नक्षत्र-चरण \_\_\_\_\_: उ०भाद्रपद - 1  
नक्षत्र स्वामी \_\_\_\_\_: शनि  
योग \_\_\_\_\_: वज्र  
करण \_\_\_\_\_: तैतिल  
गण \_\_\_\_\_: मनुष्य  
योनि \_\_\_\_\_: गौ  
नाड़ी \_\_\_\_\_: मध्य  
वर्ण \_\_\_\_\_: विप्र  
वश्य \_\_\_\_\_: जलचर  
वर्ग \_\_\_\_\_: सर्प  
युँजा \_\_\_\_\_: अन्त्य  
हंसक \_\_\_\_\_: जल  
जन्म नामाक्षर \_\_\_\_\_: दू-दूती  
पाया(राशि-नक्षत्र) \_\_\_\_\_: रजत - लौह  
सूर्य राशि(पाश्चात्य) \_\_\_\_\_: धनु

आचार्य उज्ज्वल कृष्ण शास्त्री जी

श्री धाम अयोध्या जी ( सारंगापुर )

7906311562 , 7388947439

Ujjwalkrishna7388@gmail.com

## पंचांग

दादा का नाम \_\_\_\_\_ :  
पिता का नाम \_\_\_\_\_ :  
माता का नाम \_\_\_\_\_ :  
जाति \_\_\_\_\_ :  
गोत्र \_\_\_\_\_ :

कैलेंडर	वर्ष	मास	तिथि/प्रविष्टे
राष्ट्रीय	शक : 1947	मार्गशीर्ष	9
पंजाबी	संवत : 2082	मार्गशीर्ष	15
बंगाली	सन् : 1432	मार्गशीर्ष	14
तमिल	संवत : 2082	कार्तिकेई	15
केरल	कोल्लम : 1201	वृश्चिकम	14
नेपाली	संवत : 2082	मार्गशीर्ष	15
चैत्रादि	संवत : 2082	मार्गशीर्ष	शुक्ल 10
कार्तिकादि	संवत : 2082	मार्गशीर्ष	शुक्ल 10

### पंचांग

सूर्योदय कालीन तिथि \_\_\_\_\_ : 10  
तिथि समाप्ति काल \_\_\_\_\_ : 21:29:26  
जन्म तिथि \_\_\_\_\_ : 10  
सूर्योदय कालीन नक्षत्र \_\_\_\_\_ : उ०भाद्रपद  
नक्षत्र समाप्ति काल \_\_\_\_\_ : 25:10:43 घंटे  
जन्म योग \_\_\_\_\_ : उ०भाद्रपद  
सूर्योदय कालीन योग \_\_\_\_\_ : वज्र  
योग समाप्ति काल \_\_\_\_\_ : 07:12:05 घंटे  
जन्म योग \_\_\_\_\_ : वज्र  
सूर्योदय कालीन करण \_\_\_\_\_ : तैतिल  
करण समाप्ति काल \_\_\_\_\_ : 10:27:55 घंटे  
जन्म करण \_\_\_\_\_ : तैतिल  
भयात \_\_\_\_\_ : 11:56:38  
भभोग \_\_\_\_\_ : 57:00:56  
भोग्य दशा काल \_\_\_\_\_ : शनि 15 वर्ष 0 मा 25 दि

### घात चक्र

मास \_\_\_\_\_ : फाल्गुन  
तिथि \_\_\_\_\_ : 5-10-15  
दिन \_\_\_\_\_ : शुक्रवार  
नक्षत्र \_\_\_\_\_ : आश्लेषा  
योग \_\_\_\_\_ : वज्र  
करण \_\_\_\_\_ : चतुष्पाद  
प्रहर \_\_\_\_\_ : 4  
वर्ग \_\_\_\_\_ : गरुड़  
लग्न \_\_\_\_\_ : सिंह  
सूर्य \_\_\_\_\_ : मिथुन  
चन्द्र \_\_\_\_\_ : कुम्भ  
मंगल \_\_\_\_\_ : कर्क  
बुध \_\_\_\_\_ : कुम्भ  
गुरु \_\_\_\_\_ : सिंह  
शुक्र \_\_\_\_\_ : कन्या  
शनि \_\_\_\_\_ : वृष  
राहु \_\_\_\_\_ : तुला

## आचार्य उज्ज्वल कृष्ण शास्त्री जी


श्री धाम अयोध्या जी ( सारंगापुर )

7906311562 , 7388947439


Ujjwalkrishna7388@gmail.com

# जन्म कुण्डली

## लग्न कुण्डली



## चन्द्र कुण्डली



आचार्य उज्ज्वल कृष्ण शास्त्री जी

श्री धाम अयोध्या जी ( सारंगपुर )

7906311562 , 7388947439

Ujjwalkrishna7388@gmail.com

## लग्न कुण्डली और दशा

### लग्न कुंडली

श चं			
रा			गु
			के
	मं. व. सू. थु	बु	

### लग्न कुंडली

		श चं	
			रा
गु			
के			
		बु	ल सू. मं थु

विंशोत्तरी  
शनि 15वर्ष 0मा 25दि  
शनि

30/11/2025

26/12/2141

शनि	25/12/2040
बुध	25/12/2057
केतु	25/12/2064
शुक्र	25/12/2084
सूर्य	25/12/2090
चन्द्र	26/12/2100
मंगल	27/12/2107
राहु	26/12/2125
गुरु	26/12/2141

योगिनी

भद्रिका 3वर्ष 11मा 17दि  
भद्रिका

30/11/2025

17/11/2029

	30/11/2025
उल्का	29/05/2026
सिद्धा	19/05/2027
संकटा	28/06/2028
मंगला	18/08/2028
पिंगला	27/11/2028
धान्या	28/04/2029
भ्रामरी	17/11/2029

आचार्य उज्ज्वल कृष्ण शास्त्री जी

श्री धाम अयोध्या जी ( सारंगापुर )

7906311562 , 7388947439

Ujjwalkrishna7388@gmail.com


## ग्रह स्पष्ट तथा उनकी स्थिति

ग्रह	व	अ	राशि	अंश	गति	नक्षत्र	पद	नं.	रा	न	अं.	स्थिति
लग्न			वृश्चि	21:02:11	315:51:22	ज्येष्ठा	2	18	मंगल	बुध	शुक्र	---
सूर्य			वृश्चि	13:52:36	01:00:46	अनुराधा	4	17	मंगल	शनि	राहु	मित्र राशि
चंद्र			मीन	06:05:30	13:54:08	उ०भाद्रपद	1	26	गुरु	शनि	बुध	सम राशि
मंगल	अ		वृश्चि	24:23:04	00:44:27	ज्येष्ठा	3	18	मंगल	बुध	राहु	स्वराशि
बुध			तुला	26:29:48	00:03:33	विशाखा	2	16	शुक्र	गुरु	केतु	मित्र राशि
गुरु	व		कर्क	00:22:19	00:03:37	पुनर्वसु	4	7	चंद्र	गुरु	चंद्र	उच्च राशि
शुक्र			वृश्चि	04:48:26	01:15:26	अनुराधा	1	17	मंगल	शनि	शनि	सम राशि
शनि			मीन	00:56:27	00:00:12	पू०भाद्रपद	4	25	गुरु	गुरु	मंगल	सम राशि
राहु	व		कुंभ	20:06:44	00:01:10	पू०भाद्रपद	1	25	शनि	गुरु	गुरु	मित्र राशि
केतु	व		सिंह	20:06:44	00:01:10	पू०फाल्गुनी	3	11	सूर्य	शुक्र	गुरु	शत्रु राशि
हर्ष	व		वृष	04:52:10	00:02:28	कृतिका	3	3	शुक्र	सूर्य	शनि	---
नेप	व		मीन	05:11:00	00:00:21	उ०भाद्रपद	1	26	गुरु	शनि	शनि	---
प्लूटो			मक	07:39:45	00:01:16	उत्तराषाढा	4	21	शनि	सूर्य	केतु	---
दशम भाव			कन्या	01:34:22	--	उ०फाल्गुनी	--	12	बुध	सूर्य	गुरु	--


व - वकी स - स्थिर  
अ - अस्त पू - पूर्ण अस्त  
राहु : स्पष्ट

चित्रपक्षीय अयनांश : 24:13:12


### लग्न-चलित



### चन्द्र कुंडली



### नवमांश कुंडली



आचार्य उज्ज्वल कृष्ण शास्त्री जी

श्री धाम अयोध्या जी ( सारंगापुर )

7906311562 , 7388947439

Ujjwalkrishna7388@gmail.com

## चलित तथा निरयण भाव चलित

### चलित अंश

भाव	भाव संधि	भाव मध्य
1	वृश्चिक 07:47:33	वृश्चिक 21:02:11
2	धनु 07:47:33	धनु 24:32:55
3	मकर 11:18:17	मकर 28:03:38
4	कुम्भ 14:49:00	मीन 01:34:22
5	मीन 14:49:00	मीन 28:03:38
6	मेष 11:18:17	मेष 24:32:55
7	वृष 07:47:33	वृष 21:02:11
8	मिथुन 07:47:33	मिथुन 24:32:55
9	कर्क 11:18:17	कर्क 28:03:38
10	सिंह 14:49:00	कन्या 01:34:22
11	कन्या 14:49:00	कन्या 28:03:38
12	तुला 11:18:17	तुला 24:32:55


### निरयण भाव चलित

भाव	राशि	अंश
1	वृश्चिक	21:02:11
2	धनु	22:30:27
3	मकर	27:03:06
4	मीन	01:34:22
5	मेष	02:05:54
6	मेष	27:55:28
7	वृष	21:02:11
8	मिथुन	22:30:27
9	कर्क	27:03:06
10	कन्या	01:34:22
11	तुला	02:05:54
12	तुला	27:55:28


### तारा चक्र

जन्म	सम्पत	विपत	क्षेम	प्रत्यारि	साधक	वध	मित्र	अतिमित्र
उ०भाद्रपद	रेवती	अश्विनी	भरणी	कृतिका	रोहिणी	मृगशिरा	आर्द्रा	पुनर्वसु
पुष्य	आश्लेषा	मघा	पू०फाल्गुनी	उ०फाल्गुनी	हस्त	चित्रा	स्वाति	विशाखा
अनुराधा	ज्येष्ठा	मूल	पूर्वाषाढा	उत्तराषाढा	श्रवण	धनिष्ठा	शतभिषा	पू०भाद्रपद

### चलित कुंडली



### भाव कुंडली



आचार्य उज्ज्वल कृष्ण शास्त्री जी

श्री धाम अयोध्या जी ( सारंगपुर )

7906311562 , 7388947439

Ujjwalkrishna7388@gmail.com

## विंशोत्तरी दशा

भोग्य दशा काल : शनि 15 वर्ष 0 मास 25 दिन

शनि 19 वर्ष	बुध 17 वर्ष	केतु 7 वर्ष	शुक्र 20 वर्ष	सूर्य 6 वर्ष
30/11/2025	25/12/2040	25/12/2057	25/12/2064	25/12/2084
25/12/2040	25/12/2057	25/12/2064	25/12/2084	25/12/2090
30/11/2025	बुध 24/05/2043	केतु 23/05/2058	शुक्र 25/04/2068	सूर्य 14/04/2085
बुध 07/09/2027	केतु 20/05/2044	शुक्र 23/07/2059	सूर्य 26/04/2069	चंद्र 13/10/2085
केतु 16/10/2028	शुक्र 21/03/2047	सूर्य 28/11/2059	चंद्र 25/12/2070	मंगल 18/02/2086
शुक्र 17/12/2031	सूर्य 25/01/2048	चंद्र 28/06/2060	मंगल 25/02/2072	राहु 13/01/2087
सूर्य 28/11/2032	चंद्र 26/06/2049	मंगल 25/11/2060	राहु 24/02/2075	गुरु 01/11/2087
चंद्र 29/06/2034	मंगल 23/06/2050	राहु 13/12/2061	गुरु 25/10/2077	शनि 13/10/2088
मंगल 08/08/2035	राहु 09/01/2053	गुरु 19/11/2062	शनि 25/12/2080	बुध 19/08/2089
राहु 14/06/2038	गुरु 17/04/2055	शनि 29/12/2063	बुध 26/10/2083	केतु 25/12/2089
गुरु 25/12/2040	शनि 25/12/2057	बुध 25/12/2064	केतु 25/12/2084	शुक्र 25/12/2090

चंद्र 10 वर्ष	मंगल 7 वर्ष	राहु 18 वर्ष	गुरु 16 वर्ष	शनि 19 वर्ष
25/12/2090	26/12/2100	27/12/2107	26/12/2125	26/12/2141
26/12/2100	27/12/2107	26/12/2125	26/12/2141	00/00/0000
चंद्र 26/10/2091	मंगल 24/05/2101	राहु 08/09/2110	गुरु 13/02/2128	शनि 29/12/2144
मंगल 26/05/2092	राहु 12/06/2102	गुरु 31/01/2113	शनि 27/08/2130	बुध 01/12/2145
राहु 25/11/2093	गुरु 19/05/2103	शनि 08/12/2115	बुध 02/12/2132	00/00/0000
गुरु 27/03/2095	शनि 26/06/2104	बुध 27/06/2118	केतु 08/11/2133	00/00/0000
शनि 25/10/2096	बुध 24/06/2105	केतु 15/07/2119	शुक्र 09/07/2136	00/00/0000
बुध 27/03/2098	केतु 20/11/2105	शुक्र 15/07/2122	सूर्य 27/04/2137	00/00/0000
केतु 26/10/2098	शुक्र 20/01/2107	सूर्य 09/06/2123	चंद्र 27/08/2138	00/00/0000
शुक्र 26/06/2100	सूर्य 28/05/2107	चंद्र 08/12/2124	मंगल 03/08/2139	00/00/0000
सूर्य 26/12/2100	चंद्र 27/12/2107	मंगल 26/12/2125	राहु 26/12/2141	00/00/0000

- ❖ उपरोक्त दशा चंद्रमा के अंशो के आधार पर दी गई है। भयात भभोग के आधार पर दशा का भोग्यकाल शनि 15 वर्ष 0 मा 7 दि होता है।
- ❖ उपरोक्त तिथियां दशा के समाप्त होने का समय दर्शाती हैं। विंशोत्तरी दशा पूरे 120 वर्ष की बिना आयुनिर्णय के दी गई हैं।

आचार्य उज्ज्वल कृष्ण शास्त्री जी

श्री धाम अयोध्या जी ( सारंगपुर )

7906311562 , 7388947439

Ujjwalkrishna7388@gmail.com

## विंशोत्तरी दशा - प्रत्यन्तर

<b>शनि - बुध</b> 30/11/2025 07/09/2027	<b>शनि - केतु</b> 07/09/2027 16/10/2028	<b>शनि - शुक्र</b> 16/10/2028 17/12/2031	<b>शनि - सूर्य</b> 17/12/2031 28/11/2032	<b>शनि - चंद्र</b> 28/11/2032 29/06/2034
00/00/0000 30/11/2025 शुक्र 23/12/2025 सूर्य 11/02/2026 चंद्र 04/05/2026 मंगल 30/06/2026 राहु 24/11/2026 गुरु 04/04/2027 शनि 07/09/2027	केतु 01/10/2027 शुक्र 07/12/2027 सूर्य 27/12/2027 चंद्र 30/01/2028 मंगल 23/02/2028 राहु 24/04/2028 गुरु 16/06/2028 शनि 20/08/2028 बुध 16/10/2028	शुक्र 27/04/2029 सूर्य 24/06/2029 चंद्र 28/09/2029 मंगल 04/12/2029 राहु 27/05/2030 गुरु 28/10/2030 शनि 29/04/2031 बुध 10/10/2031 केतु 17/12/2031	सूर्य 03/01/2032 चंद्र 01/02/2032 मंगल 21/02/2032 राहु 13/04/2032 गुरु 29/05/2032 शनि 23/07/2032 बुध 10/09/2032 केतु 01/10/2032 शुक्र 28/11/2032	चंद्र 15/01/2033 मंगल 17/02/2033 राहु 15/05/2033 गुरु 31/07/2033 शनि 31/10/2033 बुध 21/01/2034 केतु 24/02/2034 शुक्र 31/05/2034 सूर्य 29/06/2034
<b>शनि - मंगल</b> 29/06/2034 08/08/2035	<b>शनि - राहु</b> 08/08/2035 14/06/2038	<b>शनि - गुरु</b> 14/06/2038 25/12/2040	<b>बुध - बुध</b> 25/12/2040 24/05/2043	<b>बुध - केतु</b> 24/05/2043 20/05/2044
मंगल 22/07/2034 राहु 21/09/2034 गुरु 14/11/2034 शनि 17/01/2035 बुध 16/03/2035 केतु 08/04/2035 शुक्र 15/06/2035 सूर्य 05/07/2035 चंद्र 08/08/2035	राहु 11/01/2036 गुरु 29/05/2036 शनि 09/11/2036 बुध 06/04/2037 केतु 06/06/2037 शुक्र 26/11/2037 सूर्य 17/01/2038 चंद्र 14/04/2038 मंगल 14/06/2038	गुरु 15/10/2038 शनि 11/03/2039 बुध 20/07/2039 केतु 12/09/2039 शुक्र 13/02/2040 सूर्य 30/03/2040 चंद्र 15/06/2040 मंगल 08/08/2040 राहु 25/12/2040	बुध 29/04/2041 केतु 19/06/2041 शुक्र 12/11/2041 सूर्य 26/12/2041 चंद्र 10/03/2042 मंगल 30/04/2042 राहु 09/09/2042 गुरु 04/01/2043 शनि 24/05/2043	केतु 14/06/2043 शुक्र 13/08/2043 सूर्य 31/08/2043 चंद्र 30/09/2043 मंगल 22/10/2043 राहु 15/12/2043 गुरु 01/02/2044 शनि 29/03/2044 बुध 20/05/2044
<b>बुध - शुक्र</b> 20/05/2044 21/03/2047	<b>बुध - सूर्य</b> 21/03/2047 25/01/2048	<b>बुध - चंद्र</b> 25/01/2048 26/06/2049	<b>बुध - मंगल</b> 26/06/2049 23/06/2050	<b>बुध - राहु</b> 23/06/2050 09/01/2053
शुक्र 08/11/2044 सूर्य 30/12/2044 चंद्र 26/03/2045 मंगल 26/05/2045 राहु 28/10/2045 गुरु 15/03/2046 शनि 26/08/2046 बुध 19/01/2047 केतु 21/03/2047	सूर्य 05/04/2047 चंद्र 01/05/2047 मंगल 19/05/2047 राहु 05/07/2047 गुरु 15/08/2047 शनि 03/10/2047 बुध 16/11/2047 केतु 04/12/2047 शुक्र 25/01/2048	चंद्र 08/03/2048 मंगल 07/04/2048 राहु 24/06/2048 गुरु 01/09/2048 शनि 22/11/2048 बुध 03/02/2049 केतु 05/03/2049 शुक्र 31/05/2049 सूर्य 26/06/2049	मंगल 17/07/2049 राहु 09/09/2049 गुरु 27/10/2049 शनि 24/12/2049 बुध 13/02/2050 केतु 06/03/2050 शुक्र 05/05/2050 सूर्य 24/05/2050 चंद्र 23/06/2050	राहु 09/11/2050 गुरु 14/03/2051 शनि 08/08/2051 बुध 18/12/2051 केतु 10/02/2052 शुक्र 15/07/2052 सूर्य 30/08/2052 चंद्र 16/11/2052 मंगल 09/01/2053

आचार्य उज्ज्वल कृष्ण शास्त्री जी

श्री धाम अयोध्या जी ( सारंगपुर )

7906311562 , 7388947439

Ujjwalkrishna7388@gmail.com

## शुभाशुभ ज्ञानम्

शुभाशुभज्ञान आपको अपने मित्र एवं शत्रु वर्ग का बोध कराता है। मूलांक, भाग्यांक एवं मित्रांक से मित्रता एवं साझेदारी करने से लाभ तथा सहयोग की प्राप्ति होती है। साथ ही शुभ दिन एवं वर्ष उन्नति कारक तथा शुभ ग्रहों की दशाएं लाभदायक होती हैं। इसी प्रकार मित्रलग्न लाभदायक एवं मित्र राशि से घनिष्ठता होती है।

शुभरत्न धातु एवं रंग धारण करने से शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता बनी रहती है तथा भाग्य रत्न धारण करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। शुभ समय में कोई भी कार्य प्रारम्भ करने से उसमें इच्छित सफलता की प्राप्ति होती है। साथ ही इष्टदेव का ध्यान एवं जप से मानसिक शान्ति तथा सफलता मिलती है। शुभ पदार्थ अन्न, द्रव्य आदि का दान या व्यापार शुभ दिशा में करने से वांछित लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार शुभाशुभज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग शुभफलदायक सिद्ध हो सकता है।

मूलांक	3
भाग्यांक	5
मित्र अंक	3, 5, 7, 9
शत्रु अंक	1, 4, 8
शुभ वर्ष	21,30,39,48,57
शुभ दिन	रवि, सोम, मंगल
शुभ ग्रह	सूर्य, चन्द्र, मंगल
मित्र राशि	वृश्चिक, धनु
मित्र लग्न	कुम्भ, कर्क, कन्या
अनुकूल देवता	जगदम्बा
शुभ रत्न	मूंगा
शुभ उपरत्न	संगमूंगी
भाग्य रत्न	मोती
शुभ धातु	ताम्र
शुभ रंग	रक्त
शुभ दिशा	दक्षिण
शुभ समय	सूर्योदय के बाद
दान पदार्थ	केसर, कस्तूरी, रक्तचन्दन
दान अन्न	मल्का
दान द्रव्य	घी

**आचार्य उज्ज्वल कृष्ण शास्त्री जी**

श्री धाम अयोध्या जी ( सारंगापुर )

7906311562 , 7388947439


Ujjwalkrishna7388@gmail.com

## रत्न चयन

रत्न जीवन में शुभत्व की वृद्धि के लिए धारण किए जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से, रत्न अपने ग्रह की राशियों को पूर्णमात्रा में मानव शरीर में प्रवाहित कर ग्रह प्रभाव की वृद्धि करते हैं। यही कारण है कि रत्न केवल शुभ ग्रहों का ही धारण किया जाता है। ग्रह शुभ माना जाता है यदि यह लग्न, त्रिकोण या केन्द्र में स्थापित हो या स्वामी हो। यह अशुभ होता है यदि यह त्रिक भाव से संबंधित हो। मित्रों की युति या दृष्टि भी इसकी शुभता बढ़ाती है। बाधक भाव का स्वामित्व शुभता कम कर देता है। चर लग्नों में एकादश, स्थिर में नवम व द्विस्वभाव में सप्तम भाव की बाधक संज्ञा है। उपरोक्त तथ्य रत्न चयन हेतु ग्रह की शुभता दर्शाते हैं।

नीचे जन्मकुण्डली में ग्रहों की शुभता को सारणी व ग्राफ में दर्शित किया गया है। साथ ही कौन सा ग्रह किस क्षेत्र में कार्य सिद्ध कर सकता है दिया गया है। विभिन्न दशाओं में विभिन्न रत्नों की शुभता भी नीचे तालिका में दी गई है। जिस ग्रह को 75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उसके रत्न हमें सर्वदा बिना दशा विचार के धारण करने चाहिए। जिन्हें 50-75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उन्हें कार्य क्षेत्र अनुसार व अनुकूल दशा में धारण करना चाहिए। जो रत्न केवल 25-50 प्रतिशत शुभता लिए हैं उनके रत्न केवल उनकी या उनके मित्रों की दशा में धारण करने चाहिए। अन्ततः जिन्हें 25 प्रतिशत से भी कम शुभता प्राप्त है वे ग्रह अपने लिए अशुभ ही समझें और उनके रत्नों को पहनने से बचना चाहिए।

रत्न	ग्रह	शुभता	क्षेत्र
पुखराज	गुरु	100%	भाग्योदय, धन, सन्तति सुख
मूंगा	मंगल	90%	स्वास्थ्य, शत्रु व रोग मुक्ति
माणिक्य	सूर्य	83%	स्वास्थ्य, व्यावसायिक उन्नति
मोती	चंद्र	81%	सन्तति सुख, भाग्योदय
गोमेद	राहु	78%	सुख, सन्तति सुख
नीलम	शनि	75%	सन्तति सुख, पराक्रम, सुख
लहसुनिया	केतु	73%	व्यावसायिक उन्नति, स्वास्थ्य
हीरा	शुक्र	25%	रोग, दाम्पत्य कष्ट, व्यय
पन्ना	बुध	0%	व्यय, दुर्घटना, हानि



### दशानुसार रत्न विचार

दशा	समाप्ति	माणिक्य	मोती	मूंगा	पन्ना	पुखराज	हीरा	नीलम	गोमेद	लहसुनिया
शनि	25/12/2040	70%	69%	78%	0%	100%	38%	88%	84%	61%
बुध	25/12/2057	89%	69%	90%	6%	100%	38%	75%	78%	73%
केतु	25/12/2064	70%	69%	97%	0%	100%	38%	62%	66%	86%
शुक्र	25/12/2084	70%	69%	90%	0%	100%	50%	81%	84%	80%
सूर्य	25/12/2090	95%	88%	97%	0%	100%	0%	62%	66%	61%
चंद्र	26/12/2100	89%	94%	90%	0%	100%	25%	75%	66%	61%
मंगल	27/12/2107	89%	88%	100%	0%	100%	25%	75%	66%	80%
राहु	26/12/2125	70%	69%	78%	0%	100%	38%	81%	91%	61%
गुरु	26/12/2141	89%	88%	97%	0%	100%	0%	75%	78%	73%

आचार्य उज्ज्वल कृष्ण शास्त्री जी

श्री धाम अयोध्या जी ( सारंगपुर )

7906311562 , 7388947439

Ujjwalkrishna7388@gmail.com

## साढ़ेसाती विचार

चंद्रमा से जन्म कुंडली में जब गोचरवश शनि की स्थिति द्वादश, प्रथम एवं द्वितीय स्थान में होती है तो साढ़ेसाती कहलाती है। शनि की चंद्रमा से चतुर्थ एवं अष्टम भाव में स्थिति होने पर ढैया शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट देता है। लेकिन कई बार यह आश्चर्यजनक उन्नति भी प्रदान करती है। साढ़ेसाती का प्रभाव सात वर्ष एवं ढैया का प्रभाव ढई वर्ष रहता है।

सामान्यतया साढ़ेसाती मनुष्य के जीवन में तीन बार आती है। प्रथम बचपन में द्वितीय युवावस्था में तथा तृतीय वृद्धावस्था में आती है। प्रथम साढ़ेसाती का प्रभाव शिक्षा एवं माता-पिता पर पड़ता है। द्वितीय साढ़ेसाती का प्रभाव कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति एवं परिवार पर पड़ता है परंतु तृतीय साढ़ेसाती स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव करती है।

निम्नलिखित तालिका में साढ़ेसाती का समय तथा प्रत्येक ढैया का शुभाशुभ फल इंगित किया गया है।

### प्रथम चक्र:

साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	30/11/2025-03/06/2027	20/10/2027-23/02/2028	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	03/06/2027-20/10/2027	23/02/2028-08/08/2029	05/10/2029-17/04/2030
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	31/05/2032-13/07/2034	-----	-----
अष्टम स्थानस्थ ढैया	28/01/2041-06/02/2041	26/09/2041-11/12/2043	23/06/2044-30/08/2044
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	25/02/2052-14/05/2054	02/09/2054-05/02/2055	-----

### द्वितीय चक्र:

साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	14/05/2054-02/09/2054	05/02/2055-07/04/2057	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	07/04/2057-27/05/2059	-----	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	11/07/2061-13/02/2062	07/03/2062-24/08/2063	06/02/2064-09/05/2064
अष्टम स्थानस्थ ढैया	04/11/2070-05/02/2073	31/03/2073-23/10/2073	-----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	12/04/2081-03/08/2081	07/01/2082-20/03/2084	-----

### तृतीय चक्र:

साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	20/03/2084-21/05/2086	21/05/2086-08/02/2087	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	21/05/2086-21/05/2086	08/02/2087-18/07/2088	31/10/2088-05/04/2089
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	19/09/2090-25/10/2090	21/05/2091-02/07/2093	-----
अष्टम स्थानस्थ ढैया	26/12/2099-17/03/2100	16/09/2100-03/12/2102	-----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	17/02/2111-02/05/2113	22/09/2113-26/01/2114	-----

### शनि का ढैया फल

#### ढैया के प्रकार

साढ़ेसाती द्वितीय ढैया  
साढ़ेसाती तृतीय ढैया  
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया  
अष्टम स्थानस्थ ढैया  
साढ़ेसाती प्रथम ढैया

#### फल

शुभ  
सम  
अशुभ  
सम  
शुभ

#### क्षेत्र

सन्तति  
शत्रु से कष्ट  
दुर्घटना से बचाव  
कम खर्च  
सुख

## आचार्य उज्ज्वल कृष्ण शास्त्री जी

श्री धाम अयोध्या जी ( सारंगपुर )

7906311562 , 7388947439

Ujjwalkrishna7388@gmail.com

## साढ़ेसाती के उपाय

शनि की साढ़ेसाती के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिये दान, पूजन, व्रत, मंत्र आदि उपाय किये जा सकते हैं। इसके लिये शनिवार को काला कंबल, उड़द की दाल, काले तिल, चर्म-पादुका, काला कपड़ा, मोटा अनाज, तिल तथा लोहे का दान करना चाहिये। शनिदेव की पूजा एवं शनिवार का व्रत रखना चाहिये। उपवास के दिन उड़द की दाल से बनी वस्तु, चने, बेसन, काले तिल, काला नमक तथा फलों का ही सेवन करना चाहिये। साथ ही स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा शनि के निम्न मंत्र के 19000 जप संपन्न करवाने चाहिये।

**ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः ।।**

शनि की साढ़ेसाती में शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक शांति एवं समृद्धि, आर्थिक सुदृढ़ता तथा कार्यक्षेत्र में उन्नति के लिये निम्नलिखित महामृत्युंजय मंत्र के 125000 जप स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा करवाने चाहिये।

**ॐ त्र्यंबकम यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।  
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ।।**

वैकल्पिक रूप से निम्नलिखित मंत्र के प्रतिदिन 108 जप किये जा सकते हैं।

**ॐ हों जूं सः ॐ भूर्भुव स्वः ॐ ।।**

शनि की साढ़ेसाती के शुभत्व को बढ़ाने के लिये शनिवार के दिन आप 5 1/4 रत्ती का नीलम रत्न पंचधातु में (सोना, चांदी, तांबा, लोखंड, जस्ता) या घोड़े की नाल या नाव की कील से निर्मित लोहे की अंगूठी धारण करें। लोहे की अंगूठी आप दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें।

अंगूठी शुक्ल पक्ष की शनिवार की सायं सूर्यास्त के समय धारण करें। पुष्य, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र अति शुभ हैं। उस दिन शनिवार का उपवास भी करना चाहिए। अंगूठी धारण करने से पूर्व इसे शुद्ध दूध एवं गंगाजल में स्नान कराना चाहिए तथा धूप आदि जलाकर शनि का पूजन करना चाहिए एवं निम्न मंत्र की एक माला या 108 बार जप करना चाहिए। नीलम मध्यमा उंगली में या गले में पेन्डन्ट बनाकर धारण करें।

**ॐ शं शनैश्चराय नमः ।**

अंगूठी धारण करने के पश्चात शनि की वस्तुओं का दान देना चाहिए। इससे शनि के अशुभ प्रभाव में कमी आयेगी तथा आपकी सुख शांति एवं समृद्धि में वृद्धि होगी।

श्री हनुमान चालीसा एवं श्री हनुमान अष्टक का पाठ करना श्रेष्ठ है।

**आचार्य उज्ज्वल कृष्ण शास्त्री जी**

श्री धाम अयोध्या जी ( सारंगपुर )

7906311562 , 7388947439

Ujjwalkrishna7388@gmail.com

## मांगलिक विचार

जब वर या कन्या की कुंडली में मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम तथा द्वादश भाव में हो तो मांगलिक दोष कहलाता है। यथोक्तम्

**लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे ।  
स्त्री भर्तुर्विनाशं च भर्ता च स्त्री विनाशनम् ।**

मांगलिक दोष लग्न से अधिक प्रबल माना जाता है लेकिन चन्द्रमा से इसका दोष लग्न की अपेक्षा अल्प होता है। यदि शास्त्रानुसार वर एवं कन्या का मांगलिक दोष भंग हो जाता है तो उनका दाम्पत्य जीवन सुख एवं प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत होता है। इसके विपरीत बिना दोष भंग हुए मांगलिक वर-कन्याओं को जीवन में कई प्रकार की अनावश्यक समस्याओं तथा व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। अतः विवाह से पूर्व शुद्ध कुण्डली मिलान से इस दोष का उचित निवारण करके ही दाम्पत्य जीवन प्रारम्भ करना चाहिए। जिससे जीवन में शान्ति तथा सम्पन्नता बनी रहे।

\*\*\*\*\*

आपकी जन्म कुंडली में मंगल लग्न में स्थित है अतः आप एक मांगलिक कन्या हैं इस मंगल के प्रभाव से आपका शारीरिक स्वास्थ्य सामान्यतया अच्छा रहेगा परन्तु यदा कदा पित या गर्मी से किंचित परेशानी हो सकती है लेकिन इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। आप स्वभाव से तेजस्वी रहेंगी तथा स्वपराक्रम के द्वारा अपने सांसारिक महत्व के कार्यों को सम्पन्न करेंगी। इस मंगल के प्रभाव से आपके विवाह में न्यूनाधिक मात्रा में विलम्ब होगा तथा विवाह संबंधी कोई वार्ता भी असफल हो सकती है लेकिन विवाह अवश्य होगा तथा विवाहोपरांत आपके पति का स्वास्थ्य भी सामान्यतया अनुकूल ही रहेगा तथा सुखी दाम्पत्य जीवन पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा।

आपकी कुंडली के प्रथम भाव में स्थित मंगल की चतुर्थ भाव पर दृष्टि होने से जीवन में आपको आवश्यक सुख संसाधनों की प्राप्ति में किंचित परिश्रम करना पड़ेगा साथ ही जमीन जायदाद तथा वाहन आदि से भी आप युक्त रहेंगी। सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि के प्रभाव से जीवन साथी का स्वास्थ्य मध्यम रहेगा परन्तु परस्पर मधुरता के संबंध बने रहेंगे। मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर होने के कारण सांसारिक कार्यों में यदा कदा व्यवधान उत्पन्न होंगे परन्तु उनका सामना तथा समाधान करने में आप समर्थ रहेंगी। इसके प्रभाव से यदा कदा पित जनित कष्ट की भी संभावना रहेगी परंतु इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा।

अतः मंगल के दुष्प्रभाव को कम करने तथा शुभ प्रभावों में वृद्धि करने के लिए आपको किसी मांगलिक युवक से विवाह करना चाहिए जिससे मांगलिक दोष परस्पर भंग हो सके। इसके लिए पुरुष की कुंडली में मांगलिक भावों अर्थात् प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम एवं द्वादश भाव में शनि राहु जैसे अन्य पाप ग्रह की स्थिति होनी चाहिए। यदि इस प्रकार मांगलिक दोष भंग होने के पश्चात् आप विवाह करेंगी तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तथा

जीवन में समस्त सुखोपभोग की सामग्री को अर्जित करने में आप समर्थ रहेंगी। साथ ही धन ऐश्वर्य से युक्त होकर आप सुख पूर्वक अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत करेंगी।



**आचार्य उज्ज्वल कृष्ण शास्त्री जी**

श्री धाम अयोध्या जी ( सारंगपुर )

7906311562 , 7388947439

Ujjwalkrishna7388@gmail.com

## कालसर्प योग

अग्रे राहुरधः केतुः सर्वे मध्यगताः ग्रहाः ।  
योगाऽयं कालसर्पाख्यो शीघ्रं तं तु विनाशय ॥

आगे राहु हो एवं नीचे केतु मध्य में सभी (सातों) ग्रह विद्यमान हो तो कालसर्प योग बनता है। द्वादश भावों में राहु की स्थिति के अनुसार काल सर्प योग मुख्यतः द्वादश प्रकार के होते हैं। वे हैं-

1. अनंत, 2. कुलिक, 3. वासुकि, 4 शङ्खपाल, 5. पद्म, 6. महापद्म, 7. तक्षक, 8. कर्कोटक, 9. शङ्खचूड, 10. घातक, 11. विषधर, 12. शेषनाग ।

यह योग उदित अनुदित भेद से दो प्रकार के होते हैं राहु के मुख में सभी सातों ग्रह ग्रसित हो जाएं तो उदित गोलाब्ध नामक योग बनता है एवं राहु की पृष्ठ में यदि सभी ग्रह हों तो अनुदितन गोलाब्ध नामक योग बनता है।

इस योग में उत्पन्न जातक को मानसिक अशांति, धनप्राप्ति में बाधा, संतान अवरोध एवं गृहस्थी में प्रतिपल कलह के रूप में प्रकट होता है। प्रायः जातक को बुरे स्वप्न आते हैं। कुछ न कुछ अशुभ होने की आशंका मन में बनी रहती है। जातक को अपनी क्षमता एवं कार्यकुशलता का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, कार्य अक्सर देर से सफल होते हैं। अचानक नुकसान एवं प्रतिष्ठा की क्षति इस योग के लक्षण हैं।

जातक के शरीर में वात पित्त त्रिदोषजन्य असाध्य रोग अकारण उत्पन्न होते हैं। ऐसे रोग जो प्रतिदिन क्लेश (पीडा) देते हैं तथा औषधि लेने पर भी ठीक नहीं होते हों, काल सर्प योग के कारण होते हैं। काल सर्प योग के उपाय इन कष्टों से राहत के लिये आवश्यक हो जाते हैं।

### जातक पर काल सर्प योग का प्रभाव

आपकी जन्मपत्रिका में काल सर्प योग विद्यमान नहीं है। अतः आपको इस योग के लिए शांति आदि की आवश्यकता नहीं है एवं आप पूर्ण रूप से सुखी जीवन व्यतीत कर सकेंगे।

# पितृदोष विचार

## पितृदोष क्या है ?

हमारे पूर्वज या परिवार के सदस्य मृत्योपरान्त पितृ संज्ञा प्राप्त करते हैं। पितृ हमारे और भगवान के बीच की कड़ी होते हैं। यदि ये प्रसन्न होते हैं तो जातक सुखी जीवन भोगता है, लेकिन यदि किसी कारणवश ये अप्रसन्न हो जाते हैं तो जातक को अनेक प्रकार की व्याधियाँ व कष्ट झेलने पड़ते हैं।

कालांतर में पितृ या तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, या पृथ्वी लोक पर पुनः जन्म ले लेते हैं। यदि परिवार के सभी पितरों का पुनर्जन्म या मोक्ष हो गया हो तो कुछ समय के लिए उस परिवार के कोई पितृ नहीं होते। ऐसे में जातक सुख दुख अपनी कुंडली अनुसार प्राप्त करता है। अतः परिवार के सदस्यों को चाहिए कि जब तक वे पितृ लोक में हैं तब तक तर्पणादि से उनकी सेवा करें। यदि पितृ प्रसन्न रहते हैं तो आशीर्वाद स्वरूप जातक चहुमुखी प्रगति प्राप्त करता है।

पितृ अप्रसन्न, दुःखी एवं अतृप्त होते हैं यदि किसी पूर्वज की अंतिम इच्छा पूर्ण न हुई हो, या किसी के द्वारा श्रापित हों या असामयिक मृत्यु हो गई हो। पितृ योनि में रहते हुए भी उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। यदि परिवार के सदस्य तर्पणादि द्वारा भोजन नहीं देते हैं तो वे भूख से व्याकुल हो जाते हैं। पितृ विभिन्न प्रकार के कष्टों की अनुभूति करते हैं जब तक कि जातक पितरों की शांति हेतु पूजन-पाठ, पिंडदान, तर्पण आदि न करे।

पितृ दोष अपने कर्मों के कारण न हो करके, अपने माता-पिता या पूर्वजों के कर्मों के कारण होते हैं, क्योंकि यह दोष तो जातक के जन्म से जन्मपत्री में विद्यमान होता है जबकि कर्म तो जन्म के बाद ही बनते हैं। अतः पितृदोष ऐसा दोष है जिसका कोई कारण समझ में नहीं आता, केवल लक्षण दर्शित होते हैं। जन्मपत्री में भी शुभ दशा व गोचर के योग होते हुए भी हमें हमारे कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता, या घर में सदैव कलह, अशांति, धन की कमी व बीमारी लगी रहती है। संतान नहीं होती या संतान विक्षिप्त होती है, बच्चों के विवाह में अड़चन आती है या उनके विकास में अवरोध आते हैं। अतः जब भी किसी प्रकार की समस्या बार-बार आती है एवं कोई कारण नजर न आता हो तो हमें पितृ दोष की शांति करवानी चाहिए जब तक कि वातावरण और परिस्थितियां अनुकूल न हो जाएं।

## पितृदोष लक्षण

1. परिवार में आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना होना।
2. आनुवांशिक बीमारी होना और लंबी अवधि तक बीमारी का चलना।
3. परिवार में शारीरिक रूप से विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म होना।
4. परिवार में बच्चों द्वारा असम्मान या प्रताड़ना का व्यवहार करना।
5. गर्भ धारण न होना या गर्भपात होना।
6. परिवार के किसी सदस्य का विवाह न होना।

आचार्य उज्ज्वल कृष्ण शास्त्री जी

श्री धाम अयोध्या जी ( सारंगपुर )

7906311562 , 7388947439

Ujjwalkrishna7388@gmail.com

7. परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा-फसाद होना।
8. कभी खत्म न होने वाली गरीबी परिवार में हो जाना।
9. बुरी आदतों की लत लग जाना।
10. परिवार में बार-बार केवल कन्या संतान का जन्म होना।
11. शिक्षा में बाधाएं आना।
12. स्वप्न में सांप दिखाई देना।
13. माथे पर गंदी करतूतों का कलंक लगना।
14. परिवार में किसी बुजुर्ग के बाल सफेद होने के पश्चात पीले होने लगना या काली खांसी होना।
15. परिवार के किसी सदस्य को स्वप्न में पूर्वज द्वारा खाना या कपड़े मांगते हुए दिखना।

### पितृ की पहचान :

1. श्रीमद् भगवद् गीता के ग्यारहवें अध्याय का पाठ करें तो आपको कुछ दिनों में ही स्वप्न में पितृ दर्शन होंगे।
2. रात को सोने से पहले हाथ पैर धोकर अपने मन में अपने पितृ से प्रार्थना करें कि जो भी मेरे पितृ हैं वे मुझे दर्शन दें।
3. यदि आपका कोई कार्य अटक रहा है तो अपने पितृ को याद कीजिए और उन्हें कहें कि यदि आप हैं तो मेरा अमुक कार्य हो जाए। मैं आपके लिए शांति पाठ कराउंगा। आपकी ऐसी प्रार्थना से कार्य सिद्धि हो जाने पर यह प्रमाणित हो जाएगा कि आपको पितृ शांति करवानी चाहिए।

### पितृ दोष उपाय :

1. श्राद्ध पक्ष में मृत्यु तिथि के दिन तर्पण व पिंडदान करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं व वस्त्र/दक्षिणा आदि दें।
2. यदि मृत्युतिथि न मालूम हो तो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन तर्पण व पिंडदानादि कर्म करें।
3. प्रत्येक अमावस्या विशेषतः सोमवती अमावस्या को पितृभोग दें। इस दिन गोबर के कंडे जलाकर उसपर खीर की आहुति दें। जल के छींटे देकर हाथ जोड़ें व पितृ को नमस्कार करें।
4. सूर्योदय के समय सूर्य को जल दें व गायत्री मंत्र का जप करें।
5. पीपल के पेड़ पर जल, पुष्प, दूध, गंगाजल व काले तिल चढ़ाकर पितृ को याद करें, माफी और आशीष मांगें।
6. रविवार के दिन गाय को गुड़ या गेहूं खिलाएं।
7. लाल किताब के अनुसार परिवार में जहां तक खून का रिश्ता है जैसे दादा, दादी, माता, पिता, चाचा, ताया, बहन, बेटी, बुआ, भाई सबसे बराबर-बराबर धन, 1, 5 या दस रुपए लेकर मंदिर में दान करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है।
8. हरिवंश पुराण का श्रवण और गायत्री जप पितृ शांति के लिए लोकप्रसिद्ध है।
9. गया या त्र्यंबकेश्वर में त्रिपिंडी श्राद्ध या नन्दी श्राद्ध करें।
10. नारायणबलि पूजा करवाएं।

## आचार्य उज्ज्वल कृष्ण शास्त्री जी

श्री धाम अयोध्या जी ( सारंगपुर )

7906311562 , 7388947439

Ujjwalkrishna7388@gmail.com

11. पितृ गायत्री का अनुष्ठान करवाएं -

**ॐ देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च ।**

**नमः स्वाहायै स्वधायैः नित्यमेव नमो नमः ॥**

12. पितृ दोष निवारण उपायों में गया में पिंडदान, गया श्राद्ध तथा पितृ भोग अर्पण आदि क्रियाएं करते हुए उपरोक्त पितृ गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए ।

13. श्री कृष्ण मुखामृत गीता का पाठ करें ।

### **पितृ पूजा के लिए आवश्यक निर्देश :**

1. पितरों को मांस वाला भोजन न अर्पित करें ।
2. पूजा के दिन स्वयं भी मांस भक्षण न करें ।
3. पितृ पूजा में स्टील, लोहा, प्लास्टिक, शीशे के बर्तन का प्रयोग न करें । मिट्टी या पत्तों के बर्तनों का ही प्रयोग करें ।
4. पितृ पूजा में घंटी न बजाएं ।
5. पितृ पूजा करने वाले व्यक्ति की पूजा में व्यवधान न डालें ।
6. बुजुर्गों का सम्मान करें ।
7. पितरों के निमित्त किये जाने वाले गौ-दान से पितृ तृप्त होते हैं ।
8. घर में पीने का पानी रखा जाता है उस स्थान पर विशेष पवित्रता रखें । यह स्थान पितृओं का स्थान माना जाता है ।
9. पितृ कर्म हेतु साल में 12 मृत्यु तिथि, 12 अमावस्या, 12 पूर्णिमा, 12 संक्रांति, 12 वैधृति योग, 24 एकादशी व श्राद्ध के 15 दिन मिलाकर कुल 99 दिन होते हैं ।

### **आपकी कुण्डली में पितृदोष**

- चन्द्र पंचम भाव में स्थित है तथा उस पर शनि का प्रभाव है ।
- नवम भाव के स्वामी पर शनि का प्रभाव है ।

आपकी कुण्डली में चन्द्र के कारण पितृदोष है ।

आपकी कुण्डली में चंद्र पितृदोष कारक ग्रह है अतः माता के पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है । इस दोष के निवारणार्थ सोमवार को प्रतिदिन शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल चढ़ाएं साथ ही शिव पंचाक्षरी “ॐ नमः शिवाय” का मंत्र जाप करें । दुर्गा, शिव या पार्थिवेश्वर महादेव का पूजन करें । ढाक की समिधा व जड़ी-बूटियों से हवन करे तथा गौ-दान करें ।

आपकी कुण्डली में पितृदोष का योग है परंतु यदि आपको अपने जीवन में उपरोक्त वर्णित पितृदोष लक्षण में से किसी प्रकार का कष्ट या परेशानी की अनुभूति नहीं हो रही है तो आपको पितृदोष संबंधी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है । संभव है कि किसी शुभकार्य के कारण आपके पितृ प्रसन्न हो गए हों व आपको उनकी कृपा प्राप्त हो रही हो या वे मोक्ष को

**आचार्य उज्ज्वल कृष्ण शास्त्री जी**

श्री धाम अयोध्या जी ( सारंगपुर )

7906311562 , 7388947439


Ujjwalkrishna7388@gmail.com

प्राप्त हो गए हों।

**नोट :**

त्रिपिण्डी श्राद्ध एवं नारायण नाग बली पितृदोष के लिए मुख्य उपाय हैं। यह स्रयंबकेश्वर में विशेष रूप से कराये जाते हैं। त्रिपिण्डी श्राद्ध में आटे को पानी में मांढ़ कर पुतले के रूप में पूर्वजों के प्रतीकात्मक पिंड बना लिये जाते हैं, उन पर मंत्रों का पाठ किया जाता है। अंत में अस्थि विसर्जन के समान उनको जल में प्रवाह कर दिया जाता है।

नारायण नागबलि, पूर्वजों के मोक्ष व उनकी इच्छा पूर्ति के लिए कराया जाता है। इसमें दो दिन श्मशान क्रिया होती है व तीसरे दिन मांगलिक पूजा की जाती है। यदि पितृदोष के कारण संतान बाधा या विवाह बाधा आदि होती है तो इस उपाय के पश्चात जातक बाधामुक्त हो जाता है और काम स्वतः बनने लगते हैं।



**आचार्य उज्ज्वल कृष्ण शास्त्री जी**

श्री धाम अयोध्या जी ( सारंगपुर )

7906311562 , 7388947439

Ujjwalkrishna7388@gmail.com

## ग्रह फल

### सूर्य

लग्न (प्रथम) में सूर्य हो तो जातक स्वाभिमानी, चंचल, कृशदेही, प्रवासी उन्नत नासिका, विशाल ललाटवाला, पित्त-वातरोगी, शूरवीर, अस्थिर सम्पत्तिवाला एवं अल्पकेशी होता है।

वृश्चिक राशि में रवि हो तो जातक साहसी, लोभी, चिकित्सक, लोकमान्य, क्रोधी उद्योगी, उदररोगी, पुलिस अधिकारी एवं सेना में उच्चपद प्राप्त करने वाला होता है।

आपके जन्म समय में सूर्य की स्थिति प्रथम भाव में स्थित है। अतः आपके पिता का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा एवं उनकी आयु भी दीर्घ होगी। आपके प्रति उनके हृदय में वात्सल्य भाव रहेगा तथा जीवन में समस्त शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों में वे आपको अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे। साथ ही आप जीवन में पिता के द्वारा यश अर्जित करने में भी सफल रहेंगी। इसके अतिरिक्त पिता के द्वारा आपके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान भी रखा जाएगा।

आप भी उनके प्रति हार्दिक सम्मान तथा आदर प्रदान करेंगी तथा उनकी सेवा एवं आज्ञा पालन करने के लिए सर्वदा तत्पर रहेंगी। आपके परस्पर संबंध मधुर रहेंगे तथापि यदा कदा अल्प मात्रा में सैद्धान्तिक मतभेद विद्यमान रहेंगे जिससे यदा कदा विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। साथ ही आप जीवन में उन्हें अपना पूर्ण सहयोग तथा सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर रहेंगी।

### चन्द्र

पंचमभाव में चन्द्रमा हो तो जातक सदाचारी, कन्यासन्ततिवान्, चंचल सट्टे से धन कमानेवाला एवं क्षमाशील होता है।

मीन राशि में चन्द्रमा हो तो जातक शिल्पकार, सुदेही, शास्त्रज्ञ, धार्मिक, अतिकामी और प्रसन्न मुख वाला होता है।

आपके जन्म काल में चन्द्रमा पंचम भाव में स्थित है। अतः आप माता की परम प्रिय रहेंगी। उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा एवं आयु भी लम्बी होगी। धन धान्य से वे सर्वदा युक्त रहेंगी तथा जीवन में आपको प्रत्येक क्षेत्र में अपना सहयोग प्रदान करेंगी। साथ ही कला, नीति, विद्या आदि में भी आपको नित्य प्रोत्साहित करती रहेंगी एवं इनकी वृद्धि में उनका मुख्य सहयोग रहेगा। वे स्वभाव से भी अत्यन्त सुशील होंगी तथा आपको नित्य अच्छी शिक्षाएं देती रहेंगी।

आप की भी उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा एवं सम्मान की भावना रहेगी एवं उनकी आज्ञापालन के लिए नित्य तत्पर रहेंगी। जीवन में उनकी सेवा करना अपना कर्तव्य समझेंगी तथा अवसरानुकूल उनको वांछित आर्थिक या अन्य प्रकार से सहयोग एवं सहायता प्रदान करेंगी। आपके संबंध मधुर रहेंगे तथा किसी भी प्रकार से आपकी मतभेद नहीं रहेंगे।

**आचार्य उज्ज्वल कृष्ण शास्त्री जी**

श्री धाम अयोध्या जी ( सारंगपुर )

7906311562 , 7388947439

Ujjwalkrishna7388@gmail.com

## मंगल

लग्न (प्रथम) में मंगल हो तो जातक, चपल, क्रूर, महत्वाकांक्षी, विचार रहित, गुप्तरोगी, उतावला, लौहधातु एवं व्रणजन्य, कष्ट से युक्त, व्यवसायहानि, दुर्घटना की सम्भावना, दुःखी, निर्धन एवं साहसी होता है।

वृश्चिक राशि में मंगल हो तो जातक नीति-दक्ष, अच्छी स्मरण शक्ति ईर्ष्यालु स्वभाववाला, बहुतहठी, अभिमानी, चोरों का नेता, पातकी एवं दुराचारी होता है।

आपके जन्म समय में मंगल की स्थिति प्रथम भाव में स्थित है अतः आपके भाई बहिनों का स्वास्थ्य मध्यम रहेगा एवं यदा कदा शारीरिक व्याकुलता से वे पीड़ित रहेंगे। आपके प्रति उनके मन में पूर्ण स्नेह का भाव भी विद्यमान रहेगा। धन धान्य से वे युक्त रहेंगे तथा जीवन में समस्त शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों में वे आपको अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे। साथ ही अन्य प्रकार से समय समय पर आपको आर्थिक सहयोग भी प्रदान करेंगे।

आपके हृदय में भी उनके प्रति स्नेह एवं सम्मान की भावना विद्यमान रहेगी। आपके संबंध प्रायः मधुर ही होंगे लेकिन यदा कदा सैद्धान्तिक मतभेदों के कारण अल्प समय के लिए संबंधों में कटुता या तनाव भी उत्पन्न होंगे परन्तु कुछ समय के बाद सब कुछ स्वतः ही ठीक हो जाएगा। आप एक दूसरे से प्रायः सहमत रहेंगे एवं विश्वास भी करेंगे। इसके साथ ही आप भी हमेशा सुख दुःख में यथाशक्ति उनकी सहायता करने के लिए तत्पर रहेंगी एवं अपनी ओर से उन्हें किसी भी प्रकार की कष्टानुभूति नहीं होने देंगी।

## बुध

बारहवें भाव में बुध हो तो जातक अल्पभाषी, विद्वान्, आलसी धर्मात्मा, वकील, सुन्दर, वेदान्ती, लेखक, दानी एवं शास्त्रज्ञ होता है।

तुला राशि में बुध हो तो जातक आस्तिक, व्यापार दक्ष, वक्ता, चतुर, शिल्पज्ञ, कुटुम्बवत्सल, उदार, अच्छा अन्तर्ज्ञान, वफादार, विनीत संतुलित मन एवं दार्शनिक होता है।

## गुरु

नवमभाव में गुरु हो तो जातक पराकमी, धर्मात्मा, पुत्रवान, बुद्धिमान, राजपूज्य, तपस्वी, विद्वान्, योगी, वेदान्ती, यशस्वी, भक्त, भाग्यवान् संन्यास की ओर प्रवृत्ति एवं प्रचुर सन्तान होता है।

कर्क राशि में गुरु हो तो जातक सदाचारी, विद्वान्, सत्यवक्ता महायशस्वी, साम्यवादी, सुधारक, योगी, लोकमान्य, सुखी, धनी, नेता, कुशाबुद्धि एवं वफादार होता है।

**आचार्य उज्ज्वल कृष्ण शास्त्री जी**

श्री धाम अयोध्या जी ( सारंगपुर )

7906311562 , 7388947439

Ujjwalkrishna7388@gmail.com

## शुक्र

लग्न (प्रथम) में शुक्र हो तो जातक सुन्दरदेही, दीर्घायु, राजप्रिय, कामी, उच्चसरकारी पद पर आसीन, विलासी, भोगी, विद्वान्, प्रवासी, मधुरभाषी, प्रसिद्ध सुखी एवं ऐश्वर्यवान् होता है।

वृश्चिक राशि में शुक्र हो तो जातक-नास्तिक, कुकर्मि, स्त्रीद्वेषी दरिद्री, गुह्य रोगी, ऋणी, क्रोधी, स्वतन्त्र एवं अन्यायी होता है।

## शनि

पंचम भाव में शनि हो तो जातक आलसी, सन्तानयुक्त, चंचल, उदासीन, विद्वान्, भ्रमणशील एवं बातरोगी होता है।

मीन राशि में शनि हो तो जातक अविचारी, शिल्पकार हतोत्साही, धनी, प्रसिद्ध, सुखी एवं दूसरों की सहायता करने वाला होता है।

## राहु

चतुर्थभाव में राहु हो तो जातक असन्तोषी, दुखी, अल्पभाषी, मिथ्याचारी, उदरव्याधियुक्त, कपटी, मातृक्लेशयुक्त एवं क्रूर होता है।

कुम्भ राशि में राहु हो तो जातक विद्वान्, लेखक मितभाषी एवं मितव्ययी होता है।

## केतु

दशम भाव में केतु हो तो जातक अभिमानी, परिश्रमशील मूर्ख, पितृद्वेषी, दुर्भागी, संन्यास लेना एवं योगी होता है।

सिंह राशि में केतु हो तो जातक बहुभाषी, डरपोक, असहिष्णु, सर्पदशन का भय एवं असन्तोषी होता है।

## दशा विश्लेषण

**महादशा :- शनि**  
**( 30/11/2025 - 25/12/2040 )**

शनि की महादशा उन्नीस वर्ष की है। आपकी कुण्डली में यह 30/11/2025 को आरम्भ और 25/12/2040 को समाप्त होगी। आपकी जन्म कुण्डली में शनि पंचम भाव में स्थित है। शनि एक अशुभ ग्रह है। यह विलम्ब और बाधा उत्पन्न करता है, किन्तु परिश्रम के फल से वंचित नहीं करता। यह जातकों की परीक्षा लेता है और उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करने को प्रेरित करता है। आपकी जन्मकुण्डली में पंचम भाव में स्थित इस ग्रह की दृष्टि 7वें 12वें और दूसरे भाव पर है और यह उनके कार्यों को प्रभावित कर रहा है। पंचम भाव सन्तान, सुख, कलात्मक प्रतिभा, प्रतिस्पर्धी गतिविधियाँ, बुद्धि, विशाल सम्पत्ति और आध्यात्मिक कार्यों का द्योतक है।

**स्वास्थ्य :**

महादशा स्वामी 5वें भाव को शक्ति प्रदान कर रहा है। आप को सामान्यतया कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। किन्तु आपको कुछ मामूली स्वास्थ्य समस्या हो सकती है।

**अर्थ और सम्पत्ति :**

पंचम भाव में स्थित शनि भाव को शक्ति प्रदान कर रहा है जिससे आपको आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के अनेक अवसर मिलेंगे। लॉटरी या प्रतियोगिता में विजय से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। किन्तु, सम्पत्ति की प्राप्ति तथा संग्रह में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

**व्यवसाय :**

आप जो भी व्यवसाय, व्यापार या सेवा अपनाएं उसमें विशेषज्ञ होंगे। शासन के लोगों से आपकी दोस्ती होगी और आप मन्त्रशास्त्र के ज्ञाता होंगे। आप किसी संस्था के प्रधान हो सकते हैं और आप गणित आदि शास्त्र के विद्वान् भी हो सकते हैं।

**पारिवारिक जीवन :**

आपका पारिवारिक जीवन मधुर होगा और आपके बच्चे आपके आज्ञाकारी होंगे। आपका स्वभाव दम्भी होगा और आपके पड़ोसियों तथा संबंधियों से आपका संबंध मधुर नहीं रहेगा जिससे आपका घरेलू जीवन दुःखी होगा। अन्यथा जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहेंगे और आपका भाग्य भी परिवर्तनशील रहेगा।

**शिक्षा/प्रशिक्षण :**

उच्च शिक्षा के लिए समय पूरी तरह अनुकूल है। आप गणित के विद्वान् हो सकते हैं।

**अंतर्दशा :- शनि - बुध  
( 30/11/2025 - 07/09/2027 )**

शनि महादशा की अवधि 19 वर्ष होती है जो आपके लिए 30/11/2025 को प्रारंभ होकर 25/12/2040 को समाप्त होगी। इस महादशा में बुध की अंतर्दशा 2 वर्ष 8 मास 9 दिन की होगी जो आपके लिए 30/11/2025 को प्रारंभ होकर 07/09/2027 को समाप्त होगी।

बुध आपकी जन्मपत्री में द्वादश भाव में स्थित है। द्वादश भाव हानि, बाधाएं, धन के दुरुपयोग, धोखा, दान, परिवार से अलगाव, दुख, छुपे दुश्मन, कांड, गुप्त दुख, शैयासुख और विदेश में जीवनयापन का संकेतक है। बुध ज्ञान और बुद्धि का कारक है। द्वादश भाव में स्थित होकर बुध आपकी कुंडली के छठे भाव पर दृष्टि डाल रहा है और उसके कारकत्व को प्रभावित कर रहा है।

इस अवधि में आप दार्शनिक स्वभाव के हो सकते हैं, चिंतित रह सकते हैं। विषय-वासनाओं में रुचि हो सकती है।

शुभत्व में वृद्धि के लिए बुध के तांत्रिक मंत्र के 36000 जाप करें।

**अंतर्दशा :- शनि - केतु  
( 07/09/2027 - 16/10/2028 )**

शनि महादशा की अवधि 19 वर्ष होती है। आपके लिए यह 30/11/2025 को प्रारंभ होकर 25/12/2040 को समाप्त होगी। इस महादशा में केतु की अंतर्दशा 1 वर्ष 1 मास 9 दिन की होगी जो आपके लिए 07/09/2027 को प्रारंभ होकर 16/10/2028 को समाप्त होगी।

केतु आपकी जन्मपत्रिका में दशम भाव में स्थित है। दशम भाव सम्मान, जनता, सत्ता, सफलता, पद और साख, दुनियादारी, प्रोन्नति, नियुक्ति, धार्मिक कार्य, सरकार से सम्मान और जांघों का परिचायक है। दशम भाव में स्थित होकर केतु आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल रहा है और उसके कारकत्व को प्रभावित कर रहा है।

इस अवधि में आपके कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं, फिर भी आप साहसी और प्रसन्न रहेंगे। धर्म में रुचि होगी, तीर्थों की यात्राएं करेंगे। गरीबों की मदद करेंगे।

अरिष्ट से बचाव और शुभत्व में वृद्धि के लिए केतु के तांत्रिक मंत्र के 72000 जाप करें।

**अंतर्दशा :- शनि - शुक्र  
( 16/10/2028 - 17/12/2031 )**

शनि महादशा की अवधि 19 वर्ष होती है। आपके लिए यह 30/11/2025 को प्रारंभ होकर 25/12/2040 को समाप्त होगी। इस महादशा में शुक्र की अंतर्दशा 3 वर्ष 2 मास की होगी जो आपके लिए 16/10/2028 को प्रारंभ होकर 17/12/2031 को समाप्त होगी।


शुक्र आपकी जन्मपत्री में लग्न में स्थित है। लग्न शारीरिक बनावट, आकृति, स्वास्थ्य, जन्मजात स्वभाव और आदतें, सम्मान, गरिमा, सामान्य शुभत्व, चेहरे का ऊपरी भाग, आयु और जीवन की रूपरेखा आदि का परिचायक है।

शुक्र शुभ ग्रह है और प्रेम, विवाहित जीवन, सुख-साधन, मनोरंजन और उत्तम पसंद का कारक है। लग्न में स्थित होकर शुक्र आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहा है और उसके कारकत्व को प्रभावित कर रहा है।

इस अवधि में आपका जीवन प्रेम और रति से परिपूर्ण हो सकता है। सुख-सुविधाओं का आनंद उठाएंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा, ऊर्जा और कार्यक्षमता बढ़ेंगी। प्रसन्नचित्त रहेंगे। वासनाओं पर कुछ नियंत्रण रखना श्रेयस्कर रहेगा।

शुभत्व में वृद्धि और अरिष्ट से बचाव के लिए :

- लक्ष्मीजी की उपासना करें।
- चींटियों को शक्कर और आटा खिलाएं।
- कन्याओं को खीर खिलाएं।



**आचार्य उज्ज्वल कृष्ण शास्त्री जी**

श्री धाम अयोध्या जी ( सारंगपुर )

7906311562 , 7388947439

Ujjwalkrishna7388@gmail.com